

Model: Duastro-2025-2030-Health

SrNo: 115-120-105-3261 / 1001

Date: 19/02/2025

लिंग : पुल्लिंग
जन्म तिथि : 01/01/1999
दिन : शुक्रवार
जन्म समय : 13:01:00 घंटे
इष्ट : 14:27:13 घटी
स्थान : .Delhi
राज्य : Delhi
देश : India

अक्षांश : 28:37:00 उत्तर
रेखांश : 77:12:00 पूर्व
मध्य रेखांश : 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार : -00:21:12 घंटे
ग्रीष्म संस्कार : 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय : 12:39:48 घंटे
वेलांतर : -00:03:19 घंटे
साम्पातिक काल : 19:21:52 घंटे
सूर्योदय : 07:14:06 घंटे
सूर्यास्त : 17:35:11 घंटे
दिनमान : 10:21:05 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) : उत्तरायण
सूर्य स्थिति(गोल) : दक्षिण
ऋतु : शिशिर
सूर्य के अंश : 16:35:04 धनु
लग्न के अंश : 04:42:27 मेष

अवकहड़ा चक्र
लग्न-लग्नाधिपति : मेष - मंगल
राशि-स्वामी : मिथुन - बुध
नक्षत्र-चरण : मृगशिरा - 4
नक्षत्र स्वामी : मंगल
योग : ब्रह्म
करण : विष्टि
गण : देव
योनि : सर्प
नाड़ी : मध्य
वर्ण : शूद्र
वश्य : मानव
वर्ग : मार्जार
युँजा : पूर्व
हंसक : वायु
जन्म नामाक्षर : की-किशोर
पाया(राशि-नक्षत्र) : ताम्र - स्वर्ण
सूर्य राशि(पाश्चात्य) : मकर

चैत्रादि संवत् / शक : 2055 / 1920
मास : पौष
पक्ष : शुक्ल
सूर्योदय कालीन तिथि : 14
तिथि समाप्ति काल : 11:01:20
जन्म तिथि : 15
सूर्योदय कालीन नक्षत्र : मृगशिरा
नक्षत्र समाप्ति काल : 14:34:43 घंटे
जन्म नक्षत्र : मृगशिरा
सूर्योदय कालीन योग : शुक्ल
योग समाप्ति काल : 09:29:25 घंटे
जन्म योग : ब्रह्म
सूर्योदय कालीन करण : वणिज
करण समाप्ति काल : 11:01:20 घंटे
जन्म करण : विष्टि

घात चक्र
मास : आषाढ़
तिथि : 2-7-12
दिन : सोमवार
नक्षत्र : स्वाति
योग : परिघ
करण : कौलव
प्रहर : 3
वर्ग : मूषक
लग्न : कर्क
सूर्य : मीन
चन्द्र : कुम्भ
मंगल : मेष
बुध : मकर
गुरु : वृष
शुक्र : मिथुन
शनि : कुम्भ
राहु : कर्क

ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न			मेष	04:42:27	481:13:30	अश्विनी	2	1	मंगल	केतु	चंद्र	---
सूर्य			धनु	16:35:04	01:01:08	पूर्वाषाढा	1	20	गुरु	शुक्र	चंद्र	मित्र राशि
चंद्र			मिथु	05:42:56	14:37:14	मृगशिरा	4	5	बुध	मंगल	चंद्र	मित्र राशि
मंगल			कन्या	24:41:49	00:29:40	चित्रा	1	14	बुध	मंगल	राहु	शत्रु राशि
बुध			वृश्चि	27:52:03	01:23:59	ज्येष्ठा	4	18	मंगल	बुध	गुरु	सम राशि
गुरु			कुंभ	28:08:46	00:08:50	पूर्वाभाद्रपद	3	25	शनि	गुरु	शुक्र	सम राशि
शुक्र			मक	01:56:06	01:15:13	उत्तराषाढा	2	21	शनि	सूर्य	गुरु	मित्र राशि
शनि			मेष	02:56:02	00:00:18	अश्विनी	1	1	मंगल	केतु	शुक्र	नीच राशि
राहु	व		कर्क	28:59:17	00:06:42	आश्लेषा	4	9	चंद्र	बुध	शनि	शत्रु राशि
केतु	व		मक	28:59:17	00:06:42	धनिष्ठा	2	23	शनि	मंगल	शनि	शत्रु राशि
हर्ष			मक	17:07:59	00:03:08	श्रवण	3	22	शनि	चंद्र	शनि	---
नेप			मक	07:13:47	00:02:10	उत्तराषाढा	4	21	शनि	सूर्य	केतु	---
प्लूटो			वृश्चि	15:17:05	00:02:05	अनुराधा	4	17	मंगल	शनि	गुरु	---
दशम भाव			धनु	25:03:22	--	पूर्वाषाढा	--	20	गुरु	शुक्र	बुध	--


व - वकी स - स्थिर

अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त


राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:50:25


लग्न-चलित



चन्द्र कुंडली



नवमांश कुंडली



स्वास्थ्य, व्यक्तित्व एवं प्रकृति

आपके जन्म समय में लग्न में मेष राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी मंगल है। सामान्यतया मेष लग्न में उत्पन्न जातक साहसी पराक्रमी तेजस्वी तथा परिश्रमी होते हैं तथा अपने इन्हीं गुणों से वे जीवन में वांछित मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा अर्जित करने में समर्थ रहते हैं। ये अत्याधिक सक्रिय एवं क्रियाशील होते हैं तथा अपने इन्हीं गुणों से जीवन में इच्छित उन्नति प्राप्त करते हैं।

अतः इस लग्न के प्रभाव से आप साहसी परिश्रमी तथा पराक्रमी पुरुष होंगे तथा अपने शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों को परिश्रम एवं निर्भयता से सम्पन्न करेंगे। आप में स्वाभिमान का भाव भी विद्यमान रहेगा तथा स्वपरिश्रम तथा योग्यता से जीवन में मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा अर्जित करने में समर्थ होंगे।

आपके स्वभाव में प्रारंभ से ही तेजस्विता का भाव विद्यमान रहेगा फलतः यदा कदा आप अनावश्यक क्रोध एवं चंचलता का प्रदर्शन करेंगे। जीवन में आपको जन्म भूमि के अतिरिक्त अन्य स्थान में सफलता एवं उन्नति प्राप्त होगी तथा वहीं आपका जीवन सुख पूर्वक व्यतीत होगा। साथ ही सांसारिक सुखोपभोग के साधनों को भी आप परिश्रम पूर्वक अर्जित करके सुख पूर्वक इनका उपभोग करने में समर्थ होंगे।

लग्न में शनि की स्थिति के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा तथा समय समय पर मानसिक व्याकुलता भी बनी रहेगी। यद्यपि आपको जीवन में काफी समस्याओं एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा परन्तु अपने परिश्रम एवं दृढ़ संकल्प शक्ति के द्वारा आप इनका सामना तथा समाधान करने में समर्थ होंगे। आपकी प्रवृत्ति में उदारता तथा सहिष्णुता का भाव भी विद्यमान रहेगा तथा अवसरानुकूल अन्य जनों को आप अपना सहयोग प्रदान करेंगे। जिससे आपके प्रति लोगों के मन में आदर का भाव उत्पन्न होगा।

आपके सांसारिक कार्य यद्यपि विलम्ब से सिद्ध होंगे परन्तु गौरव एवं सम्मान बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको परिश्रम से उन्नति प्राप्त होगी तथा सामाजिक जनों के मध्य भी समय समय पर मान सम्मान मिलता रहेगा। आपको अपनी प्रवृत्ति का अन्य जनों के समक्ष सादगी पूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए तथा इसमें अनावश्यक दिखावे का समावेश नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जीवन में आपको इच्छित सुखैश्वर्य एवं वैभव की प्राप्ति होगी।

इस प्रकार आप एक परिश्रमी, तेजस्वी, कार्य निकालने में चतुर परन्तु मन्द गति से कार्य करने वाले होंगे तथा जीवन में आवश्यक सुखों का उपभोग करने में समर्थ होंगे।

स्वास्थ्य - 2025

स्वास्थ्य की दृष्टि वर्ष का प्रारम्भ उत्तम रहेगा। शारीरिक ऊर्जा व कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। पूर्ण रूप से शारीरिक आरोग्यता बनी रहेगी परन्तु 29 मार्च के बाद द्वादशस्थ शनि के प्रभाव से आप छोटी-मोटी बीमारियों के कारण परेशान हो सकते हैं।

समय का सदुपयोग कर अपनी जीवनशैली को बेहतर बनाने की कोशिश करें। किसी आर्थिक मुद्दे को लेकर या किसी विरोधी के कारण दिमागी तनाव न पालें। चिड़-चिड़े न बनें अन्यथा इन सबका आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

जनवरी 2025 के लिए फलादेश

इस माह ग्रह, नक्षत्रों का संयोजन आपके स्वास्थ्य के मामलों के लिए बहुत अनुकूल और उत्तम फलदायक बना हुआ है। पहले से चले आ रहे बुखार और शीघ्र क्रोध की स्थिति तथा अचानक होने वाली बीमारियों से आपको काफी राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त सबसे पुरानी बीमारियों से राहत के शुभ संकेत बन रहे हैं। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह माह बहुत अनुकूल माह होना चाहिए। इस माह के ग्रह योग के अनुसार एहतियात और सावधानी न रखने पर दुर्घटना या हिंसक चोट की स्थिति बन सकती है। इसलिए आप जहां तक हो सके अपनी रक्षा हेतु सावधानियां बरतें। दुर्घटना की संभावना आपके लिए आंशिक चिंता का कारण बन सकती है। सतर्कता बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

फरवरी 2025 के लिए फलादेश

इस माह में बन रहे ग्रह योग आपके स्वास्थ्य के लिए आंशिक प्रसन्नता लिए हुए हैं। इस माह में आपको गठिया, पाचन तंत्र, पेट फूलना, वायु रोग जैसी अनियमितताएं और पुराने रोग की वापसी होने का खतरा आपके लिए मुश्किल स्थिति बना रहा है। इन रोगों की चिकित्सा हेतु आपको चिकित्सा पद्धतियों में बदलाव करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस माह में आपको अपनी मांसपेशियों में ऐंठन आदि की शिकायत होने की संभावना बन रही है। हालांकि यह रोग अल्पकाल के लिए प्रभावी हो रहे हैं परन्तु फिर भी आपको इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेना होगा। इस माह की घटनाएं आपके लिए बहुत अच्छी नहीं बन रही हैं। इसलिए एहतियात बरतना आपके लिए अनुकूल रहेगा।

मार्च 2025 के लिए फलादेश

इस माह के सितारों का संयोजन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं बना हुआ है। इस माह आपको सामान्य दुर्बलता का अनुभव हो सकता है। तथा इस माह आपके तंत्रिका विकार प्रभावी हो सकते हैं। अत्यधिक परिश्रम करने से थकावट होकर आपके स्वास्थ्य सुख में कमी होगी। अपनी स्वस्थता बनाए रखने के लिए आपको आवश्यक आराम करना चाहिए।

अपने शारीरिक तंत्र पर अनुचित दबाव डालने से बचना चाहिए। अपने कार्य से संबंधित गतिधियों का एक कार्यक्रम तैयार कर, कठोरता से इसका पालन कर आप स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस माह आपकी मांसपेशियों में घंटन हो सकती हैं। रोगों का शीघ्रता से ईलाज कराना आपके लिए हितकारी रहेगा।

अप्रैल 2025 के लिए फलादेश

ग्रहों की स्थिति इस माह आपके लिए सुखद और अनुकूल नहीं बन रही हैं। अतः ऐसे में सितारों का सहयोग मिलना आपके लिए कठिन होगा। इस माह अवधि में आपको सदी और सदी से होने वाले रोग होने से परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसके अतिरिक्त इस अवधि में आपको इस प्रकार से होने वाले रोगों से विशेष बचाव के प्रयास करने होंगे। इस अवधि विशेष में छाती की पुरानी बीमारियां भी आपकी परेशानियों का कारण बन सकती हैं। सावधानी रखना हितकारी रहेगा। सदी, खांसी जैसे रोगों की गंभीरता से जांच कर इनकी जटिलताओं का समूल निवारण करना होगा। इसके अतिरिक्त इस अवधि विशेष में आपको मांसपेशियों में घंटन आदि की परेशानी हो सकती हैं। इस स्थिति में तुरंत ईलाज कराना आपके लिए हितकारी रहेगा। माह अवधि में बन रही ग्रह स्थिति के अनुसार आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में सावधान रहना चाहिए।

मई 2025 के लिए फलादेश

आने वाले माह के दौरान बन रही ग्रह स्थिति आपके लिए बहुत उत्साहजनक नहीं रहेगी। इसलिए यह माह स्वास्थ्य के पक्ष से बहुत शुभ नहीं हैं। आपको बुखार, सूजन या शीघ्र होने वाली अन्य गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह माह आपके लिए परेशानियों भरा हो सकता है। किसी रोग के प्रभावी होने पर उपचार में किसी भी तरह की लापरवाही या एहतियात उपायों में देरी आपके स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर सकती हैं। सिर से संबंधित रोग होने की संभावना बन रही है। समय रहते उपचार कराने से स्वास्थ्य हानि अधिक नहीं होगी। एहतियात के रूप में आप अपने सिर के लिए किसी टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं।

जून 2025 के लिए फलादेश

इस माह के सितारों का संयोजन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभदायक बनी हुई हैं। स्वास्थ्य के पक्ष से यह समय बहुत उत्तम बना हुआ है। गठिया, पेट फूलना, वायु रोग एवं पाचन तंत्र की शिकायतें जैसे पुराने रोगों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के न होने से आपको काफी राहत मिलेगी। यह माह स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगा। खांसी रोग प्रभावी हो सकता है। ऐसी जटिलताओं की गंभीरता से जांच कराते रहना होगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता आपको गंभीर रोगों से बचाएगी। किसी भी प्रकार की गंभीर स्वास्थ्य समस्या इस महीने आने की

द्य

प

प

प

संभावना नहीं बन रही हैं। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए इस माह में स्वास्थ्य चिंता का अन्य कोई कारण नहीं बन रहा है।

जुलाई 2025 के लिए फलादेश

इस माह की ग्रह स्थिति आपके स्वास्थ्य को शुभता प्रदान कर अनुकूल योग बना रही है। आप अत्यधिक परिश्रम कर स्वयं पर व्यर्थ का दबाव डालने से बचें। इस विषय में सतर्क रहना लाभकारी रहेगा। आपको यह ध्यान से समझ लेना चाहिए और इसका सख्ती से पालन भी करना चाहिए कि आप अपने सामर्थ्य के अनुरूप परिश्रम करें। इसके विपरीत जाने पर आपको गंभीर रोगों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने कार्यों की एक सूची तैयार कर समय सारणी बना कर कार्य करना चाहिए। पुरानी बीमारियां जैसे—गठिया आदि रोगों के शांत रहने से आपको काफी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य के लिए यह माह बहुत शुभ माह बना हुआ है। इस माह में एहतियात और बचाव करना लाभदायक रहेगा।

अगस्त 2025 के लिए फलादेश

इस माह के ग्रह योगों का सूक्ष्मता से विचार करने पर सितारों की स्थिति आपके स्वास्थ्य सुख के लिए बेहतर परिणामदायक नहीं बन रही हैं। आपके पाचन अंगों में सरलता से विकार आ सकते हैं। जिससे आपको शारीरिक रोग शीघ्र हो सकते हैं। इस प्रकार की कठिनाईयों से बचने के लिए आपको अत्यधिक देखभाल, सावधानियों और ईलाज की आवश्यकता हो सकती है। शारीरिक अंगों के संवेदनशील हो जाने के कारण आपको खांसी, जुकाम और कफ आदि रोग जल्द हो सकते हैं। वास्तव में यह माह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत सतर्कता का माह रहेगा। इस माह में आपको अपने स्वास्थ्य का अधिक से अधिक ध्यान रखना होगा।

सितम्बर 2025 के लिए फलादेश

आपके स्वास्थ्य के लिए इस माह ग्रह और भाग्य की शुभता नहीं बनी हुई है। अतः इस माह में रोग शीघ्र प्रभावी हो सकते हैं। बुखार, सूजन तथा अचानक से होने वाली गंभीर बीमारियां आपके स्वास्थ्य सुख में कमी कर सकती हैं। इस अवधि में आपका स्वास्थ्य संवेदनशील बना हुआ है। शीघ्र उपचार लेना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ऐसा करने से रोग आपके नियंत्रण में रहेंगे। इस अवधि में आंशिक समय के लिए नेत्र संक्रमण रोग प्रभावी हो सकते हैं। मांसपेशियों में घंटन होना भी आपकी शारीरिक परेशानियों का कारण बनेगा। समय पर उपचार कराने और सतर्कता रखने से स्वास्थ्य विकारों में कमी आयेगी।

अक्टूबर 2025 के लिए फलादेश

इस माह के ग्रह योग आपके स्वास्थ्य सुख में कमी का कारण बन रहे हैं। स्वास्थ्य की कमी आपकी दिक्कतों को बढ़ा सकती है। बुखार, सूजन एवं अचानक से होने वाले रोग

द्य

प

प

प

आपको अपने प्रभाव में जल्द ले सकते हैं। रोगों के प्रति संवेदनशीलता आपकी परेशानियों को बढ़ाएगी। रोगों को नियंत्रण में रखने के लिए शीघ्र उपचार कराना आपके लिए बहुत आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त नेत्र संक्रमणों के प्रति सतर्कता बनाए रख आप इन रोगों से बचाव रख सकते हैं। इस माह अवधि में मांसपेशियों में घंटन होने से आपकी अतिरिक्त परेशानियां बढ़ सकती हैं। एहतियात रखने और समय पर उपचार करने से रोग जटिल रोगों में परिवर्तित नहीं होंगे। स्वस्थ बने रहने के लिए आपको अपना अत्यधिक ख्याल रखना होगा।

नवम्बर 2025 के लिए फलादेश

इस माह में बन रही ग्रह स्थिति आपके स्वास्थ्य सुख के लिए बहुत अनुकूल नहीं बन रही हैं। इस माह में अधिक परिश्रम और थकावट के कारण आपको सामान्य दुर्बलता और तंत्रिका विकार की समस्याएं होने की संभावना बन रही हैं। इस समय में आपको स्वयं को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ सकते हैं। अपने शारीरिक तंत्र पर अनुचित दबाव डालने से आपको बचना होगा। सामान्य से अधिक मेहनत करने से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कार्यों के लिए अनुसूची बनाकर समय सारणी अनुसार जीवन यापन करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस प्रकार के कार्यक्रमों का आपको सख्ती से पालन भी करना होगा। इसके अलावा आपको पैर और मांसपेशियों में घंटन की परेशानियां आ सकती हैं। इस स्थिति में आपको अतिरिक्त ध्यान और देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। ग्रह योग आपके प्रतिकूल बन रहे हैं। इसलिए इस समय में आपको अपना ख्याल रखना चाहिए।

दिसम्बर 2025 के लिए फलादेश

इस माह में बन रहे ग्रह, सितारे एवं योग यह निर्धारित कर रहे हैं कि इनकी स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं बन रही हैं। बवासीर और छाती की पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को इस समय मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस संबंध में आपको विशेष ध्यान की जरूरत है अन्यथा रोगों के उपचार में बहुत अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। रोगों से संबंधित सावधानियों का बिना गलती के अनुसरण करना आवश्यक है। इस माह अवधि में मांसपेशियों में घंटन जैसी समस्याओं की संभावना बन रही है। उपचारों में किसी प्रकार की अनदेखी आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं रहेगी। ध्यान से रहें, यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभ नहीं बना हुआ है।

स्वास्थ्य - 2026

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष मिला-जुला रहेगा। द्वादशस्थ शनि के कारण आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। मौसमजनित बीमारियों के कारण आप अस्वस्थ रह सकते हैं। यदि पहले से कोई बीमारी है तो परहेज की ज्यादा जरूरत है नहीं तो आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। बेहतर होगा कि आप अपने दैनिक जीवन में अनुशासित भोजन अपनायें व लापरवाही न करें। किसी भी मुद्दे को लेकर आवश्यकता से अधिक चिंता न करें। सुबह जल्दी उठकर घूमना या व्यायाम करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा।

31 अक्टूबर के बाद समय अनुकूल हो रहा है। उस समय लग्न स्थान पर गुरु ग्रह के दृष्टि प्रभाव से आपके अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति विकसित होगी जिससे आपकी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएंगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे।

जनवरी 2026 के लिए फलादेश

जहां तक आपके स्वास्थ्य का सवाल है यह माह आपके लिए एक अच्छा माह रहेगा। सूर्य आपको असाधारण सुरक्षा और जीवन शक्ति प्रदान करेगा। छोटी बीमारियों को अनदेखा न करें अन्यथा यह बड़ी हो सकती हैं। स्वयं को इस माह रोग मुक्त रखने के लिए आप छोटी बीमारियों का समय रहते ईलाज करायें अन्यथा आरोग्य लाभ में काफी जटिल समस्या पैदा हो सकती है। शेष अन्य कोई गंभीर रोग होने की कोई संभावना नहीं है।

फरवरी 2026 के लिए फलादेश

स्वास्थ्य सुख के पक्ष से यह माह आपके लिए एक अच्छा माह है। इस माह में सूर्य आपको अतिरिक्त साधारण सुरक्षा और जीवन शक्ति प्रदान करेगा। यह सुरक्षा और जीवन शक्ति आपके स्वास्थ्य सुख को बढ़ाएगी। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत न रहें। इसके लिए आप अपना सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए पाचन तंत्र तथा वायु से होने वाले रोग के प्रति अतिरिक्त सावधानी बनाए रखें। इसके अलावा किसी भी प्रकार के छोटा सा दुःख होने पर, किसी भी समय हानि के बिना तुरंत ईलाज करायें। अन्यथा आपके लिए स्वस्थ होना जटिल मामला सिद्ध हो सकता है। यह आपके लिए एक धीमी और थकाऊ प्रक्रिया हो सकती है। इसके अलावा इस माह स्वास्थ्य विषयों को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। सरल, सामान्य सावधानियां रखना पर्याप्त होगा।

मार्च 2026 के लिए फलादेश

इस माह की ग्रह परिस्थितियां आपके स्वास्थ्य की अनुकूलता सुनिश्चित करेंगी। वास्तव में सूर्य आपके जीवन को सुरक्षा और जीवन शक्ति प्रदान कर आपकी आरोग्यता को बढ़ा रहे हैं। सूर्य शुभता से आप को बीमारियां शीघ्र अपने प्रभाव में ले सकती हैं। ग्रह शुभता होने से

द्य

प

प

प

आप अपने स्वास्थ्य सुख को लेकर संतुष्ट रहेंगे। यदि किसी कारणवश आप के स्वास्थ्य में अनियमितता होती है तो फिर से स्वास्थ्य सुख प्राप्त करना आपके लिए एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है। एक छोटे रोग का ईलाज कराने में आपको लम्बा समय लग सकता है। माह अवधि में बन रहे ग्रह स्थिति योग आपके स्वास्थ्य संबंधी मामलों को नियंत्रित कर रहे हैं। उपचार कराने की स्थिति का सामना आपको न करना पड़े इसके लिए आपको सामान्य एहतियात रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त चिंता की कोई बात नहीं है।

अप्रैल 2026 के लिए फलादेश

इस माह आप अपने स्वास्थ्य को लेकर खास सावधानी बरतें। अन्यथा आपको विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। माह अवधि में आपको कोई गले आदि में फोड़ा या पाचन तंत्र में गिरावट की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार की किसी भी स्वास्थ्य अनियमितता के प्रति आपको गंभीर रहना होगा और रोगों के प्रति उदासीनता से बचना होगा। इस माह नक्षत्र और ग्रह स्थिति आपके बहुत अनुकूल नहीं हैं। इसलिए इस माह आपको गंभीर रोगों से बचने के लिए आपको रोग होने पर शीघ्र चिकित्सा करानी होगी। आपको किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी होगी। इसके अलावा एक अन्य कारण भी है कि आप अपने फेफड़ों से जुड़ी वेदनाओं को लेकर सावधानी बरतें। इस माह आपको कफ अथवा खांसी की समस्या हो सकती है। प्रारंभित उपचार से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही हैं।

मई 2026 के लिए फलादेश

इस माह सूर्य आपको रोगों से मुक्त रखेगा। आपको असाधारण जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रदान करेगा। रोगों से लड़ने की शक्ति आपमें अधिक होने से आप रोगों के प्रभाव में शीघ्र नहीं आयेंगे। रोग ग्रस्त होने पर आपके स्वास्थ्य में तेजी के साथ लाभ होगा। सूर्य शुभता से आपको नेत्रों, अस्थियों, सिर, हृदय, प्राण शक्ति, रक्त तथा पित्त संबंधी आदि रोग प्रभावित नहीं कर पायेंगे। इस माह में आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी तथा स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। आंशिक रूप से आपको सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। अचानक से बुखार आना तथा शीघ्र क्रोध की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य में होने वाले विकारों को अनदेखा करने पर छोटे रोग गंभीर रोग में परिवर्तित हो सकते हैं। सावधान रहें।

जून 2026 के लिए फलादेश

इस माह आप अपने स्वास्थ्य में किसी प्रकार की अनियमितताओं को लेकर सावधान रहें। रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होने के कारण आप रोगों के प्रभाव में शीघ्र आ सकते हैं। स्वास्थ्य की कमी आपको कुछ वेदनाओं की स्थिति दे सकती है। विशेष रूप से इस माह की ग्रह स्थिति आपको पाचन तंत्र, गठिया, वायु रोग और पुरानी बीमारियों से ग्रस्त कर सकती है। हृदय

संबंधित रोगों की समय समय पर जांच कराते रहना आपके लिए हितकारी रहेगा। स्वास्थ्य विकार होने पर चिकित्सा सलाह और उपचार में देरी न करें। इसके अतिरिक्त आपको गले से संबंधित रोगों की भी सावधानी से जांच करानी चाहिए। सतर्कता उपचार से बेहतर रहेगी।

जुलाई 2026 के लिए फलादेश

इस माह सूर्य आपको असाधारण शक्ति और जीवन शक्ति प्रदान कर रहा है। सूर्य शुभता आपके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेगी। शारीरिक कमजोरी और तंत्रिका संबंधी विकार संबंधित स्वास्थ्य की जांच कराते रहना चाहिए। इस माह आप अपने ऊपर अत्यधिक तनाव न लें। आपकी यह प्रवृत्ति मजबूत शारीरिक शक्ति के बावजूद स्वास्थ्य समस्या पैदा कर सकती है। व्यर्थ का पराक्रम दिखाते हुए स्वयं को स्वस्थ दिखाना आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। अस्थमा और पानी से होने वाले रोगों से बचाव के लिए सामान्य तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। रोग ग्रस्त होने पर शीघ्र चिकित्सा लेनी लाभकारी रहेगी। यदि आप थकावट और अत्यधिक तनाव से बचाव करते हैं तो आपको कोई गंभीर खतरा नहीं होगा।

अगस्त 2026 के लिए फलादेश

इस माह सूर्य आपको असाधारण शक्ति और जीवन शक्ति प्रदान करेगा। जिससे आप सूर्य की सुरक्षात्मक शक्तियों का पूरा लाभ प्राप्त होने की आशा कर सकते हैं। इस अवधि में आपको पाचन अंगों में विकार एवं जुकाम से ग्रस्त होने की संभावना है। सूर्य आपकी बीमारियों को काफी हद तक नियंत्रित रखेगा। केवल सामान्य सावधानी बरतने की आवश्यकता है। फिर भी रोगों का शीघ्रता से ईलाज करायें और अनावश्यक रूप से देरी न करें। रोगों का पूर्ण उपचार न कराना और स्वयं को स्वस्थ मानना आपके रोगों को बढ़ा सकता है। एक छोटे से दुःख का भी शीघ्रता से ईलाज करायें और अनावश्यक देरी करने करने से बचें। अस्थमा और छाती के रोगों पर केवल कुछ सावधानी रख नियंत्रण रख सकते हैं। बचाव करने से बड़े रोग प्रभावी नहीं हो पायेंगे।

सितम्बर 2026 के लिए फलादेश

इस माह आप स्वयं में ऊर्जा और जीवन शक्ति का अनुभव करेंगे। सूर्य की शुभता आपको किसी भी प्रकार की गंभीर वेदनाओं से मुक्त रखेगी। अचानक से होने वाले रोगों से आपका बचाव होगा। इस छोटी अवधि में बड़ी बीमारियां काफी हद तक नियंत्रण में रहेंगी। परन्तु फिर भी आप स्वास्थ्य अनियमितताओं को बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते हैं। उपचार से बचाव बेहतर रहेगा। स्वस्थता प्राप्त करना आपके लिए एक लम्बी और मुश्किल प्रक्रिया हो सकती है। इसलिए एक छोटी सी बीमारी से पीड़ित होने पर शीघ्र चिकित्सा उपचार कराना आपके लिए एक अच्छा विचार होगा। यदि आप गंभीर बीमारियों से मुक्त रहना चाहते हैं तो आपको इस विचार का सख्ती से पालन करना चाहिए।

अक्तूबर 2026 के लिए फलादेश

इस महीने सूर्य असाधारण शक्ति और जीवन शक्ति प्रदान कर आपको हर प्रकार की गंभीर वेदनाओं से मुक्त रखेगा। यही कारण है कि आपको कब्ज, पेचिश, पेट से संबंधित आदि बीमारियों से बचाव के लिए व्यायाम करना चाहिए। क्योंकि आपके पीड़ित हो जाने पर स्वास्थ्य प्राप्ति की प्रक्रिया बहुत ही धीमी और थकाऊ हो सकते हैं। इस माह की शुभ ग्रह स्थिति आपको गठिया और पाचन संबंधी रोग, वायु रोग और पुरानी बीमारियों से मुक्त रखेगी। अत्यधिक भोग से दूर रहना आपके लिए इस माह बहुत अच्छा रहेगा।

नवम्बर 2026 के लिए फलादेश

इस माह के ग्रह योग काफी हद तक आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेंगे। सूर्य आपको असाधारण जीवन शक्ति प्रदान करेगा। यह शक्ति आपके चारों और सुरक्षा चक्र का कार्य करेगी। दुर्बलता, थकावट और अत्यधिक परिश्रम करने से होने वाले विकारों और तंत्रिका तंत्र के विकार आपको कष्ट दे सकते हैं। इस माह ग्रहों की स्थिति अनुकूल होने के कारण आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन फिर भी आप आप स्वयं रोगों को आमंत्रित न करें। सामान्य सावधानी लें। जिससे आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकें। अपनी ऊर्जा शक्ति का उचित उपयोग करना इस माह आपके लिए उपयोगी रहेगी।

दिसम्बर 2026 के लिए फलादेश

सूर्य इस माह आपको असाधारण शक्ति और जीवन सुरक्षा प्रदान करेगा। इस माह आपको यौन अंगों में बीमारी होने की संभावना बन रही हैं। समय रहते जांच कराते रहें। इसके अतिरिक्त इस माह आप अन्य किसी भी प्रकार के रोग प्रभाव से आप मुक्त रहेंगे। छोटी बीमारियां के भी प्रभावी होने की संभावनाएं नहीं बन रही हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहने वाली जीवन शैली को आपको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इस माह की स्थिति आपको एक उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने के योग बना रही हैं। यदि आप पीड़ित होते हैं तो यह आपकी लापरवाही होगी और ऐसे में स्वस्थ होना आपके लिए एक बहुत ही धीमी और क्रमिक प्रक्रिया होगी। सामान्य स्वस्थता को बनाए रखने के लिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा।

स्वास्थ्य - 2027

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष अनुकूल नहीं रहेगा। द्वादश स्थान का शनि आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। आर्थिक स्थिति को लेकर आवश्यकता से अधिक चिंता न करें। मौसम जनित बीमारियों से भी आप परेशान हो सकते हैं। नियमित व्यायाम एवं संतुलित आहार लाभप्रद रहेगा।

26 जून के बाद आपका समय कुछ अनुकूल हो रहा है। लग्न स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से आप के अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति का संचार होगा, जिससे आप मानसिक रूप से सन्तुष्ट एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य को अनुकूल रखने के लिए शाकाहारी भोजन एवं योगासन के साथ-साथ व्यायाम भी करते रहें। 26 नवम्बर के बाद समय फिर से प्रभावित हो सकता है।

जनवरी 2027 के लिए फलादेश

इस माह की ग्रह, नक्षत्र स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होकर स्वास्थ्य शुभता का आशिर्वाद दे रही हैं। इसके अलावा पुरानी अनियमितता होने का खतरा न होने से आपको काफी राहत का अनुभव होगा। अचानक से होने वाले रोग जैसे बुखार या शीघ्र क्रोध आना जैसी बीमारियों का चिकित्सा उपचार शीघ्र कराना होगा। इससे रोग नियंत्रित रहेंगे और गंभीर बीमारियां जन्म नहीं ले पायेंगी। इस माह का मिला जुला भाग्य आपको लापरवाही न बरतने पर दुर्घटना या हिंसक चोट की संभावना बना रहा है। आवश्यक देखभाल आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती हैं।

फरवरी 2027 के लिए फलादेश

आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप अपनी ओर से किसी प्रकार की लापरवाही न करें, स्वास्थ्य अनुकूलता के लिए आपकी तत्परता आवश्यक है। ग्रह एवं नक्षत्रों की शुभता आपके सभी स्वास्थ्य विकारों का समाधान कर रही हैं। आंशिक रूप से पाचन शिकायतें, गठिया, वायु रोग एवं पुराने रोगों का न उभरना आपको राहत देगा। परन्तु इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपने स्वास्थ्य विकारों को अनदेखा करने लगें। आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप सामान्य सावधानी रखें और गंभीर विषयों का ध्यान रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य की किसी भी छोटी सी शिकायत को भी आपको नजर अंदाज नहीं करना है। इससे यह माह आपके लिए शुभ होकर अनुकूल बना रहेगा।

मार्च 2027 के लिए फलादेश

इस माह जहां तक आपके स्वास्थ्य का सवाल है, इस माह आपको अपने शुभ भाग्य के लिए आभारी रहना चाहिए। इस माह के ग्रह नक्षत्र यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस अवधि

द्य

प

प

प

में आपको किसी गंभीर स्वास्थ्य संकट के परेशान न करने की संभावना बन रही हैं। अत्यधिक परिश्रम करना कुछ खतरनाक हो सकता है। आपको इससे बचना होगा। आपको अपने मानसिक और भौतिक संसाधनों पर किसी भी प्रकार का अनुचित दबाव नहीं डालना चाहिए। इससे बचाव करने के लिए आप को अपने कार्यों का एक समय सारणी निर्धारित करनी चाहिए। यदि आप इस विषय में किसी प्रकार की एहतियात नहीं लेते हैं तो आप गंभीर प्रकृति की समस्याओं में घिर सकते हैं। थकावट और तंत्रिका विकारों को बिल्कुल अनदेखा न करें। अन्यथा छोटे सा रोग देखभाल न करने पर गंभीर मुसीबत का आकार ले सकता है। अन्य विषयों के लिए इस माह आप अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लें।

अप्रैल 2027 के लिए फलादेश

इस माह भाग्य की शुभता आपके स्वास्थ्य को शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहे है। पुरानी अनियमितताओं के न होने का खतरा आपको काफी राहत का अनुभव कराएगा। सभी प्रकार की सावधानी बरतें। वायु रोगों से भी आप बचाव का ध्यान रखें। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की अनियमितता को गंभीरता से न लेना किसी बड़े रोग को निमंत्रण देना हो सकता है। सामान्य सावधानियां रखने से ही आप गंभीर समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। विशेष रूप से आपको जुकाम, खांसी, कफ जैसी वेदनाओं को लेकर सावधान रहना चाहिए। एक मामूली बीमारी होने से इसका ईलाज तुरंत करना चाहिए। अन्यथा कठिनाईयां हो सकती हैं। इस विषय में यह समय आपके लिए सचेत रहना का रहेगा।

मई 2027 के लिए फलादेश

इस माह ग्रहों की स्थिति, योग आपके स्वास्थ्य सुख के लिए अनुकूल बन रही हैं। इससे पूर्व किसी भी प्रकार की पुरानी अनियमितताओं जैसे बुखार, शीघ्र क्रोध आना इत्यादि में इस माह में कमी आएगी। फिर भी आप अचानक से होने वाले रोगों के प्रति सावधान रहें। कोई गंभीर बीमारी होने की संभावना नहीं बन रही हैं। स्वास्थ्य चिंताओं में कमी करने के लिए आप आवश्यकता पड़ने पर बिना देरी किए समय पर ईलाज करायें। ग्रह स्थिति स्वास्थ्य के पक्ष से शुभ होने के कारण इस अवधि में सरल सामान्य देखभाल से भी आपको बहुत लाभ पहुंच सकता है। विशेष रूप से इस माह आपको सिर से जुड़े विभिन्न रोग होने की आंशिक संभावनाएं बन रही हैं। बालों में तेजी से गिरावट की स्थिति बन सकती हैं।

जून 2027 के लिए फलादेश

ग्रह, नक्षत्र स्थिति के अनुसार स्वास्थ्य संबंधित विषयों के लिए यह एक अच्छा माह रहेगा। इस माह आपको पुरानी रोग पीड़ा से राहत का अनुभव होगा। गले के संक्रमण आदि को आपको गंभीरता से लेना होगा। इस विषय में किसी भी प्रकार का विकार होने पर आपको गंभीरता से जांच तथा ईलाज कराना होगा। साथ ही नेत्रों में किसी भी प्रकार का संक्रमण होने

द्य

प

प

प

पर भी आपको विशेष सावधानी से काम लेना होगा। माह अवधि में आपका पाचन तंत्र, गठिया, वायु रोग तथा पुराने रोग प्रभावी न हो इसके लिए आपको इन रोगों के प्रति सतर्कता बरतनी होगी। सामान्य सावधानियां रखना भी स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगा।

जुलाई 2027 के लिए फलादेश

इस माह के ग्रह, नक्षत्र और योग आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल फल प्रदायक रहेंगे। इस माह अवधि में आपको किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी प्रभावित नहीं कर पायेगी। अस्थमा और सामान्य कमजोरी जैसी पुरानी बीमारियों से ग्रस्त होने पर आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ सतर्कता अवश्य रखनी होगी। शेष के लिए यह माह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्त माह होगा। फिर भी आपको यह स्वास्थ्य सलाह दी जाती है कि आप इस समय में अपने सामर्थ्य से अधिक परिश्रम न करें। अपनी ऊर्जा शक्ति का अनावश्यक रूप से प्रयोग करने के स्थान पर अपनी ऊर्जा को विवेकपूर्ण विषयों में उपयोग करें। अन्यथा अनुकूल स्थिति बदल सकती हैं और गंभीर रोग भी प्रभावी हो सकते हैं। सामान्य रूप इस यह माह स्वास्थ्य को लेकर चिंता करने के लिए नहीं हैं। अतः इस समय में आप स्वास्थ्य अनुकूलता का आनंद लें।

अगस्त 2027 के लिए फलादेश

इस माह की ग्रह स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। अतः इस माह आप किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारियों से मुक्त रहेंगे। यदि आपको कोई पुरानी बीमारी जैसे— जुकाम, खांसी और दमा रोग आदि अपने प्रभाव में ले सकती हैं। तथा आपके पाचन अंग सरलता से अव्यवस्थित हो सकते हैं। अन्य लोगों को इस माह काफी राहत का अनुभव होगा। स्वास्थ्य सुख बनाए रखने के लिए आप सामान्य व्यायाम क्रियाएं कर सकते हैं। इस माह की ग्रह स्थिति आपको स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही की कारण उत्पन्न रोगों से बचाने के लिए अनुकूल नहीं हैं। हमेशा के लिए स्वस्थ बने रहने के लिए स्वास्थ्य सावधानी बनाए रखें। इस माह आप स्वास्थ्य सावधानी के रूप में सामान्य व्यायाम कर सकते हैं। इससे आप पूरे माह स्वस्थ बने रहने की आशा कर सकते हैं।

सितम्बर 2027 के लिए फलादेश

इस माह के दौरान आपका मन और शरीर काफी स्वस्थ और मजबूत रहेंगा। स्वयं की स्वस्थता हेतु आपको अपने छोटे दुःख की भी तत्काल चिकित्सा करानी होगी। दुःख के आरम्भ में ही देखभाल करने से रोग बड़ा नहीं होगा और उसका समय पर समाधान हो जाएगा। समय—समय पर जांच करते रहने से गंभीर बीमारी की संभावना समाप्त होगी। अचानक से होने वाले रोगों पर भी यह उपाय नियंत्रण बनाए रखेगा। परन्तु इस माह नेत्र संक्रमण की संभावना से पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है। सामान्य देखभाल करने से भी आपका स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह एक अच्छा माह रहेगा। स्वास्थ्य उपचार से संबंधित

द्य

प

प

प

चिंता का अन्य कोई कारण नहीं बन रहा है।

अक्तूबर 2027 के लिए फलादेश

अपने स्वास्थ्य के पक्ष से यह माह आपके अनुकूल रहेगा। अतः स्वास्थ्य की चिंता करने का कोई कारण इस माह उपलब्ध नहीं है। पाचन तंत्र विकार, वायु रोग, पुरानी बीमारियां तथा गठिया आदि रोगों से आपको काफी राहत का अनुभव होगा। नियमित रूप से व्यायाम करते रहने से आपके शरीर की सामान्य देखभाल होती रहेगी। इस माह में बन रहे ग्रह योग आपको गंभीर रोगों से मुक्त रखेंगे। सामान्य से अधिक भोजन करना आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। इसके कारण आपके स्वास्थ्य में कमी होकर, स्वास्थ्य हानि हो सकती है। इससे ग्रह स्थिति की अनुकूलता व्यर्थ हो सकती है। अन्य पक्ष से अपना स्वास्थ्य इस माह बेहतर बना रहेगा और आपको इस विषय में अन्य कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

नवम्बर 2027 के लिए फलादेश

इस माह में बन रहे ग्रह योगों की स्थिति आपके लिये बहुत उत्तम नहीं बनी हुई है। विशेष रूप से यदि आप अल्सर, पीठ दर्द एवं जीर्ण रोग जैसी पुरानी अनियमितताओं से ग्रस्त हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में सावधान रहने की जरूरत है। अपने स्वास्थ्य की सामान्य देखभाल के लिए व्यायाम कर सकते हैं। अथवा आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र चिकित्सा उपचार लेनी होगी। आप अचानक से बुखार रोग से ग्रसित हो सकते हैं। अथवा आप शीघ्र क्रोध में आ सकते हैं। समय पर इन रोगों से रक्षा करने से आप गंभीर बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति होने के बावजूद आप बचाव कर गंभीर संकटों से बच सकते हैं।

दिसम्बर 2027 के लिए फलादेश

इस माह के सितारों की स्थिति आपके स्वास्थ्य के पक्ष से बहुत बेहतर नहीं बनी हुई है। माह आरम्भ में आपको अपने पुराने रोगों के लिए सतर्क रहना चाहिए। अन्यथा आपको स्वास्थ्य कमियों के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जुकाम, खांसी और जीर्ण प्रकार के रोगों का प्रभाव होने पर विशेष सावधानी रखनी होगी। इसके अलावा, बवासीर से पीड़ित लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। इस माह सितारों की स्थिति आपके अनुकूल न होने के बावजूद आप एक नियंत्रित जीवन शैली का यापन कर अपने रोगों पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं तथा स्वास्थ्य सुख को भी बनाए रख सकते हैं।

स्वास्थ्य - 2028

स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का प्रारम्भ अच्छा नहीं रहेगा। कुछ न कुछ परेशानियां होती रहेंगी। यदि पहले से किसी लम्बी बीमारी से ग्रसित हैं तो यह वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। षष्ठस्थ गुरु के प्रभाव से पेट संबंधित परेशानी हो सकती है। घी व तली हुई वस्तुओं का सेवन कम करें। 28 फरवरी के बाद स्वास्थ्य में कुछ सुधार होगा। सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी।

24 जुलाई के बाद गुरु ग्रह का गोचर प्रतिकूल होने के कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। लग्नस्थ शनि एवं छठे स्थान के गुरु आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। मौसमजनित बीमारियों से परेशान रह सकते हैं। कभी-कभी बीमार नहीं होने के बावजूद भी बीमारी जैसा अनुभव करेंगे। शारीरिक व्याधियों को दूर करने के लिए अन्न दान भी कर सकते हैं।

जनवरी 2028 के लिए फलादेश

इस माह में आपके ग्रह, सितारें शुभ योग बना रहे हैं। जिसके कारण इस माह में स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता करने के अवसर कम ही बनेंगे। इसके अतिरिक्त बुखार, सूजन, अचानक रोग ग्रस्त होने से परेशानियों से आपको राहत महसूस होगी। किसी भी कारण से रोग ग्रस्त होते हैं तो शीघ्र उपचार कराना आपकी राहत को सुनिश्चित करेगा। आपको अपने लिवर रोगों को नियंत्रण में रखने के लिए सामान्य सावधानियां रखनी होंगी। इसके लिए किसी टॉनिक का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार कुछ सावधानियों का पालन कर आप स्वस्थ रह सकते हैं। इस माह चिंता करने का अन्य कोई कारण नहीं बन रहा है।

फरवरी 2028 के लिए फलादेश

स्वास्थ्य विषयों के लिए यह माह काफी लाभकारी रहेगा, इस माह अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य की अधिक चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यहां तक की गठिया, पाचन तंत्र, वायु रोग और पेट फूलना आदि पुरानी बीमारियों से आपको राहत का अनुभव होगा। किसी रोग के प्रभावी होने पर आपको रोग मुक्त होने में अधिक देखभाल नहीं करनी होगी। इस माह में आपको स्वास्थ्य परेशानियों से राहत मिलेगी। यदि आपको इससे पूर्व ही लिवर संबंधी रोग परेशान करते रहते हैं तो इस अवधि में आप इसके उपचार के लिए कोई उपयुक्त दवा ले सकते हैं। बचाव करने से रोग शीघ्र प्रभावी नहीं होंगे।

मार्च 2028 के लिए फलादेश

इस माह अवधि में ग्रहों का संयोजन आपके स्वास्थ्य सुख को शुभ कर आपको प्रोत्साहित कर रहा है। इस माह में आप सामान्य सतर्कताओं का पालन कर अपने स्वास्थ्य को

द्य

प

प

प

बनाए रखेंगे। माह अवधि में आप अपने सामर्थ्य से अधिक मेहनत कार्य न करें। यह आपके स्वास्थ्य में कमी करेगा और आपके लिए बहुत बुरा रहेगा। अपनी ऊर्जा शक्ति का अनावश्यक व्यय बचाने के लिए आप स्फूर्ति और स्वस्थता के लिए खेल गतिविधियों को समय दे सकते हैं। कार्यभार की अधिकता से बचने के लिए आप अपनी गतिविधियों की एक सूची तैयार कर कार्यों को दिनभर के समय में बांट सकते हैं परन्तु आपको ध्यान रखना है कि आप अपने कार्यक्रम का कठोरता से पालन करें। इस विषय में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त सितारे इस माह आपको ओर कोई परेशानी नहीं देंगे।

अप्रैल 2028 के लिए फलादेश

इस माह आपके सितारे काफी उत्साहजनक बने हुए हैं। इसलिए इस अवधि में आपके स्वास्थ्यों से संबंधित मामलों काफी अनुकूल रहेंगे। आपको खांसी, जुकाम और पुरानी शिकायतों से राहत मिलेगी। पुराने रोगों की वापसी न होने से यह राहत अवधि लम्बे समय के लिए रहेगी। इस प्रकार की समस्याओं का भविष्य में न होना भी आपको ओर अधिक राहत देगा। यदि आपको इस से पूर्व लिवर संबंधी किसी भी तरह की परेशानियां रही हैं तो इस समय में ऐसे रोग प्रभावी होकर आपकी चिंताएं बढ़ा सकते हैं। इन रोगों के प्रति एहतियात और सतर्कता रखने से ऐसे रोग शांत रहेंगे। अपने लिवर को स्वस्थ रखने के लिए आप चिकित्सक की सलाह से किसी दवा का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस प्रकार निवारक उपाय करने से स्वास्थ्य से संबंधित आपकी सभी चिंताएं का निराकरण होगा।

मई 2028 के लिए फलादेश

आपके स्वास्थ्य के बारे में इस माह की भविष्यवाणी काफी संतोषजनक नहीं हैं। इसलिए इस माह आपको स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना होगा। शीघ्र होने वाले रोग जैसे अचानक बुखार या सूजन होने पर आपको शीघ्र ईलाज करना हितकारी रहेगा। कुछ सावधानियां रखने से स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। स्वास्थ्य अनियमितताओं को अनदेखा करना आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगा। रोग के प्रथम लक्षण स्पष्ट होने पर ही चिकित्सा सहायता लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। यह बहुत आवश्यक है कि आप सावधानियों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा बना रहें आपको यह सुनिश्चित करना है। तथा आपको घटनाओं को समझ कर कठिनाईयों को दूर करना है। यह भी हो सकता है कि यह एक सुरक्षा कवच की तरह से काम करें। इसलिए अतिरिक्त यदि आपको किसी भी प्रकार की लिवर समस्या है तो आपको इसके उपचार के लिए शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सक से संपर्क कर ईलाज कराना और कोई टॉनिक लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा।

जून 2028 के लिए फलादेश

यह माह आपके लिए एक अनुकूल माह रहेगा क्योंकि इस माह आपको ग्रहों की

द्य

प

प

प

शुभता का आशिर्वाद प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह माह स्वास्थ्य के लिए एक बहुत अच्छा माह है। इस माह आपके स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। फिर भी आपको कुछ सावधानियों का पालन करना होगा। पेट फूलना, वायु रोग, पाचन तंत्र आदि जैसे पुरानी बीमारियां के इस माह अवधि में शांत रहने से आपको राहत का अनुभव होगा। इस माह अवधि में सावधानियां रखना लाभकारी रहेगा और स्थिति काफी संतोष जनक रहेगी। इसके अतिरिक्त गले में खराश आदि का आपको अतिरिक्त ध्यान देना होगा। इस तरह के रोग के आशिक लक्षण प्रकट होने पर रोग की सूक्ष्म जांच करना हितकारी रहेगा। हृदय रोगों के लक्षण होने की संभावना बन रही है। इसके अलावा इस माह विशेष चिंता की कोई बात नहीं है। सावधानी बरतने से स्वास्थ्य सुख बना रहेगा।

जुलाई 2028 के लिए फलादेश

इस माह सितारों के शुभ आशिर्वाद से आपके सभी रोगों से संबंधित मामलों का समाधान हो रहा है। इस कारण आप इस अवधि विशेष में स्वस्थ एवं चुस्त रहेंगे तथा आपके कम से कम रोगग्रस्त होने की संभावना बन रही है। अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बनाए रखना आपके स्वास्थ्य सुख को बढ़ाएगा। माह अवधि में आप अत्यधिक मेहनत करने से बचें। अत्यधिक मेहनत करने से स्वास्थ्य सुख में कमी हो सकती है। स्वयं को स्फूर्ति प्रदान करने के लिए आप अपने मनपसंद खेलों का प्रयोग कर स्वयं को प्रसन्न रख सकते हैं। साथ ही आपको अपनी शक्ति का प्रयोग अनावश्यक कार्यों पर करने से बचना होगा। तथा कार्यों को समय सारणी के अनुसार दिन के सारे समय में वितरित करना होगा। इससे सीमित समय में कार्यभार अधिक होने से बचा जा सकता है। साथ ही आपको जिगर संबंधी मुसीबतों का भी विशेष ध्यान रखना होगा।

अगस्त 2028 के लिए फलादेश

यह बहुत अनुकूल माह नहीं है। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त सतर्कता और देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। व्यायाम आदि करने से भी आपको लाभ होगा। माह अवधि में पेट, पाचन अंगों में कुछ कठिनाईयां आ सकती हैं। तथा पाचन तंत्र आसानी से अव्यास्थित हो सकता है। इस समय में आपको अपने आहार को लेकर सावधान रहना होगा और पहले से चले आ रहे उपचार का सख्ती से पालन करें। आपको कुछ समस्याओं में विशेष सावधानी बरतनी होगी। खांसी, जुकाम और छाती क्षेत्र में किसी भी प्रकार के संक्रमण की शीघ्र संभावनाएं बन रही हैं। इस प्रकार के रोगों का शीघ्र ईलाज कराना होगा। रोग अवधि में कठिनाईयों को रोकने के लिए चिकित्सा, उपचार और परहेज सभी का ध्यान रखना होगा। जब तक समय आपके अनुकूल न आ जायें आपको अपना ख्याल रखना होगा।

सितम्बर 2028 के लिए फलादेश

आपके स्वास्थ्य की शुभता बनाए रखने के लिए इस माह की ग्रह स्थिति का शुभ

घ

प

प

प

सहयोग आपको प्राप्त हो रहा हैं। इसलिए इस माह स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहने के कारण कम ही बने हुए हैं। फिर भी आपको अचानक बुखार या सूजन आदि के ईलाज की आवश्यकता पड़ सकती हैं। जिसमें आपको उचित देखभाल और व्यायाम करना लाभकारी रहेगा। तत्काल उपचार से भी लाभ होगा। इस संबंध में उपेक्षा हितकारी नहीं रहेगी। अन्यथा रोग बिगड़ने पर आपके स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर हो सकती हैं। इससे पूर्व किसी भी प्रकार का लिवर रोग हो तो इस रोग से बचाव का आपको ध्यान रखना होगा। बचाव के रूप में आप लिवर रोगों के लिए किसी टॉनिक का उपयोग कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना आपकी स्वास्थ्य चिंताओं में कमी करेगा।

अक्तूबर 2028 के लिए फलादेश

ग्रह सितारें इस माह आपके लिए बहुत शुभ योग में न होने के कारण आपको अपना शुभ आशिर्वाद प्रदान नहीं कर हैं। इसलिए आपको अपना ख्याल रखना होगा। गठिया, वायु रोग, पेट फूलना, पाचन तंत्र और पुरानी बीमारियों में गड़बड़ी हो सकती हैं। स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए आपको प्रयास बढ़ाने होंगे। आपको अपनी अधिक देखभाल, उपचार और आहार का ख्याल रखना होगा। इससे पूर्व यदि आपको लिवर संबंधित रोग रहे हैं तो इस समय में इन रोगों की वापसी हो सकती हैं। इस संबंध में घटने वाली घटनाएं आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं रहेंगी। अपने लिवर रोगों की रोकथाम के लिए आप कोई उपयुक्त दवा का सेवन कर सकते हैं। सावधानी रखना, रोगों को गंभीर होने से बचाएगा।

नवम्बर 2028 के लिए फलादेश

इस माह में अपना स्वास्थ्य सुख बनाए रखने के लिए आपको अधिक प्रयास नहीं करने होंगे। सितारों की शुभ स्थिति आपके स्वास्थ्य सुख को अनुकूल बनाए हुए हैं। अतः आप इस माह अपने स्वास्थ्य सुख का भरपूर आनंद लेंगे। इस माह आपको अपने सामर्थ्य से अधिक मेहनत करने से बचना होगा। संतुलित स्वास्थ्य नियमों का पालन कर आप इस सुखद स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस माह आपको अनावश्यक रूप से अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी हैं। कार्यो को समय अनुसार बांटना इस संबंध में उपयोगी कदम सिद्ध हो सकता हैं। फिर भी आप अपने जीवन की अन्य गतिविधियों को सामान्य रूप से कर सकते हैं। किसी पुराने रोग की वापसी आपकी चिंताओं को बढ़ा सकती हैं। बचाव रखने से स्थिति में सुधार होगा।

दिसम्बर 2028 के लिए फलादेश

इस माह में सितारों की शुभता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। इसलिए आपको इस माह में अपने स्वास्थ्य से जुड़े कई पहलुओं के विषय में सावधान रहना होगा। बवासीर से पीड़ित लोगों को इसके ईलाज और आहार के लिए पहले से अधिक सावधानी बरतनी होगी। सावधानी बरतने से आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी। यदि आपको

इससे पूर्व लिवर से संबंधित किसी भी प्रकार का रोग रहा हो तो आपको इन रोगों से बचाव करने के लिए खास सावधानी बरतनी होगी। इन रोगों पर नियंत्रण रखने के लिए आपकी जो भी दवाईयां आप लेते हो उन दवाईयों में चूक न करें। लिवर को स्वस्थ करने के लिए कोई अच्छा टॉनिक भी आप ले सकते हैं। इस माह में आपके स्वास्थ्य से संबंधित घटने वाली घटनाएं आपके अनुकूल नहीं होंगी। सावधानी रखना उत्तम रहेगा।

स्वास्थ्य - 2029

वर्ष का प्रारम्भ स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। लग्न स्थान पर शनि एवं गुरु ग्रह के संयुक्त गोचरीय प्रभाव से आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी परन्तु लग्न स्थान का शनि आपको आलसी बना सकता है। 29 मार्च के बाद मौसमजनित बीमारियों से किंचित परेशान हो सकते हैं।

25 अगस्त के बाद आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। लग्न पर गुरु की दृष्टि होने से आप प्रत्येक कार्य को सकारात्मक रूप से करेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपका खान-पान एवं दिनचर्या भी सुधरेगी। आपके अंदर शारीरिक आरोग्यता एवं मानसिक शान्ति बनी रहेगी। 05 अक्टूबर के बाद समय काफी अच्छा हो रहा है।

जनवरी 2029 के लिए फलादेश

ग्रह एवं सितारों का योग आपके स्वास्थ्य को सुखमय बनाए रखने के लिए बहुत अनुकूल नहीं बन रहा है। स्वास्थ्य सुख के उत्तम बने रहने की संभावनाओं में कमी हो रही है। माह अवधि में बुखार, सूजन, अचानक से गंभीर बीमारी आपके लिए स्वास्थ्य परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। इस तरह की वेदनाओं में गड़बड़ी होनी के प्रबल योग बन रहे हैं। गठिया, जुकाम जैसे पुराने विकारों का ईलाज आपको अधिक ध्यान से कराना रहेगा। इस विषय में किसी भी तरह की कोई लापरवाही आपके लिए हितकारी नहीं रहेगी। इसके अलावा आपको इस माह अवधि में दुर्घटना या हिंसक चोट लगने की संभावना बन रही है। यह माह आपके लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए अपना विशेष ख्याल रखना होगा।

फरवरी 2029 के लिए फलादेश

माह अवधि में सितारों आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य परेशानी या दुर्घटना न होने का योग सुनिश्चित कर रहे हैं। यह माह आपके लिए एक लाभकारी माह रहेगा। बुखार, सूजन या अचानक से होने वाली गंभीर बीमारियों में कोई गड़बड़ी न होने से आपको अच्छा महसूस होगा। इस प्रकार की समस्याओं के शांत रहने से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस माह अवधि में आपका स्वभाव अनुकूल और सकारात्मक बना रहेगा। पुरानी गठिया, जुकाम आदि विकारों में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। जीर्ण बीमारियों की वापसी न होने से आपको राहत का अनुभव होगा। इस माह में आपको कोई हिंसक चोट लगने की संभावना नहीं बन रही है। अतिरिक्त देखभाल करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कुल मिलाकर यह माह आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूलता लिए हुए एक सुखद माह सिद्ध हो सकता है।

मार्च 2029 के लिए फलादेश

आपके स्वास्थ्य के लिए यह माह काफी फायदेमंद माह रहेगा। इस माह आपको

द्य

प

प

प

शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। फिर भी इस अवधि में आपको अधिक परिश्रम करने से परहेज करते हुए, सतर्कता बरतनी चाहिए। यह आपके लिए स्वास्थ्य समस्याओं के आमंत्रण का कारण बन सकता है। परिश्रम की अधिकता आपके शारीरिक तंत्र पर अनुचित दबाव डाल सकती है। कार्यों और गतिविधियों का पूर्वनियोजन आपको अतिरिक्त दबाव से बचाएगा। वरना कुछ अनहोनी होने की संभावना बन सकती है। उपचार की तुलना में हमेशा एहतियात बेहतर रहेगा तथा माह अवधि में आपको विषाक्त भोजन के प्रति भी सावधानी रखनी चाहिए। कुछ अशुद्ध या बासी भोजन का सेवन करते समय आपको विशेष ध्यान देना होगा। यह लाभकारी माह है जिसके दौरान आप सामान्य रूप से स्वस्थ रहेंगे।

अप्रैल 2029 के लिए फलादेश

माह अवधि में ग्रहों एवं सितारों की स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं बन रही है। यह मुश्किल समय है सतर्कता बनाए रखें। हाथ और पैर कुछ ठंडे हो आपके स्वास्थ्य सुख में कमी कर सकते हैं। इसके अलावा आपमें सामान्य घबराहट की स्थिति बन सकती है। रोग सामान्य से अधिक बढ़े इससे बेहतर है कि इनका समय रहते निराकरण किया जाए। ग्रहों की प्रतिकूलता आपसे अतिरिक्त देखभाल और ध्यान की मांग कर रही है। इस अवधि में आपके स्वभाव में उदासी अधिक हो सकती है। इसके अलावा इस समय में अशुद्ध या बासी भोजन करने से परहेज करना होगा। सावधानी बरतें। भोजन में विषाक्तता निश्चित रूप से स्वास्थ्य कमी का कारण बन सकता है। सतर्क बने रहें।

मई 2029 के लिए फलादेश

स्वास्थ्य अनुकूलता के लिए यह माह सामान्य माह सिद्ध हो रहा है। सितारों की स्थिति आपको सामान्य शुभता दे रही है। माह अवधि में आपके स्वभाव की विनम्रता आंशिक रूप से प्रभावित हो सकती है। आप इस माह में अचानक बुखार या सूजन आदि बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। यदि ये रोग आपको पहले भी परेशान करते रहें हैं तो आपको इनके प्रति खास सावधानी रखनी होगी। स्वास्थ्य हानि न हो इसलिए सतर्कता बनाए रखना सही रहेगा। इसके अलावा सिर की कुछ बीमारी की संभावना बन रही है। इनका तुरंत ईलाज किया जाना लाभकारी रहेगा। इस माह की अवधि अनुकूल नहीं है इसलिए आपको अपना ख्याल रखना चाहिए।

जून 2029 के लिए फलादेश

यह माह आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल माह सिद्ध हो रहा है। सितारों में शुभता की कमी से आपको इस अवधि गंभीर प्रकृति के रोगों के प्रति सावधान रहना होगा। पाचन तंत्र, पेट फूलना, वायु की अधिकता से होने वाले रोग, गठिया जैसी पुरानी बीमारियों में अनियमितता होने से आपको आंशिक रूप से राहत का अनुभव होगा। माह अवधि में आपमें उत्साह की कमी के योग बन रहे हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना आपके लिए हितकारी रहेगा। किसी भी

छ

प

प

प

प्रकार के जटिल रोगों के लक्षण प्रकट होने पर इनकी अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त गले में संक्रमण या खांसी जैसे रोगों के लिए भी आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। कुल मिलाकर यह माह आपके स्वास्थ्य के लिए सामान्य रूप से अनुकूल माह हैं।

जुलाई 2029 के लिए फलादेश

सितारों का संयोजन आपके स्वास्थ्य के लिए इस माह अनुकूल नहीं बन रहा है। इस माह में आपको ज्यादा ध्यान और देखभाल की जरूरत पड़ सकती हैं। साथ ही इस माह में अत्यधिक परिश्रम करना आपको थकावट का कारण बन आपको दुर्बलता की स्थिति दे सकता है। यहां तक की आपके तंत्रिका विकार भी पीड़ित होने की संभावना बन रही हैं। यह स्थिति न बने इसके लिए सावधान रहना चाहिए। कार्यों की अधिकता से अनावश्यक रूप से आपके शारीरिक तंत्र पर पड़ने वाले दबाव को कम करना होगा। तथा छाती में किसी भी प्रकार के संक्रमण का आपको तुरंत ईलाज करना होगा।

अगस्त 2029 के लिए फलादेश

इस माह में ग्रह, सितारों का संयोजन आपके स्वास्थ्य के लिए काफी अनुकूल है। अपच जैसे रोगों से ग्रस्त लोगों को माह अवधि में इन रोगों से राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त पाचन अंगों के शीघ्र बिगड़ जाने से परेशान व्यक्तियों को भी इस समय में सुखद अनुभव होगा। फिर भी आप इन रोगों के प्रति नियमित रूप से आवश्यक सावधानी बनाए रखें। इसके अतिरिक्त खांसी, अस्थमा जैसी पुरानी शिकायतों के प्रति भी आपको सावधानी रखनी होगी। भोजन में विषाक्तता से पीड़ित हो सकते हैं। कुछ सामान्य सावधानियों का पालन करें और अशुद्ध खाना खाने से बचें। सतर्कता बनाए रखने से यह माह आपके लिए काफी उत्साहजनक माह रहेगा।

सितम्बर 2029 के लिए फलादेश

यह माह स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए काफी फायदेमंद माह सिद्ध होगा। अचानक से बुखार और शीघ्र क्रोध की स्थिति बनने जैसे रोगों के शांत रहने से आपको पर्याप्त राहत मिलेगी। माह अवधि में आपका स्वभाव कभी गंभीर कभी प्रसन्नचित्त रहेंगे। नेत्र संक्रमणों के प्रभावी होने की आंशका बन रही हैं। लेकिन इस संबंध में अधिक परेशान होने की संभावना नहीं बन रही हैं क्योंकि आपको जल्द ही इन रोगों से राहत मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अशुद्ध भोजन लेकर खाने में सावधानी बरतना एक अच्छा व उपाय रहेगा। विषाक्त भोजन आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। कुल मिलाकर इस माह में आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या के न होने से यह माह आपके लिए लाभकारी माह सिद्ध होगा।

अक्टूबर 2029 के लिए फलादेश

सितारों की शुभता आपके स्वास्थ्य शुभता के लिए बहुत उदार नहीं बनी हुई है।

द्य

प

प

प

इसलिए इस माह में आपको कुछ स्वास्थ्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पेट फूलना, पाचन तंत्र, वायु रोगों के रोग तथा पुरानी बीमारियों में फिर से गड़बड़ी हो सकती है। आहार और उपचार दोनों पर निगरानी रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। आहार पर नियंत्रण रखने से आप आसानी से अपने रोगों पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। अशुद्ध खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। सावधानी के साथ-साथ व्यायाम करने से भी स्थिति में सुधार होगा। यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है इसलिए अधिक से अधिक ध्यान देना लाभकारी रहेगा।

नवम्बर 2029 के लिए फलादेश

इस माह सितारों की अनुकूलता से आपके स्वास्थ्य विकारों का समाधान हो रहा है। ग्रहों की शुभता यह सुनिश्चित कर रही है कि इस अवधि में आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं होनी चाहिए। आपके स्वभाव में भी गंभीरता कम और उत्साह अधिक होगा। अत्यधिक परिश्रम के खिलाफ आपको सतर्कता बरतनी होगी। अत्यधिक परिश्रम इस समय बनी हुई सुखद स्थिति को खराब कर सकता है। अनावश्यक रूप से अपने शारीरिक तंत्र पर तनाव डालना ठीक नहीं होगा। अपने दैनिक गतिविधियों को इस प्रकार निर्धारित करें कि आपके शरीर पर बहुत अधिक दबाव न पड़े। इससे आपकी स्वास्थ्य समस्याओं के एक बड़े हिस्से का सुधार होगा। इस विषय में आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तनाव से बचना आपके स्वास्थ्य सुख के लिए उत्तम रहेगा। अन्यथा इस माह की अनुकूल परिस्थितियां भी किसी गंभीर समस्याओं को रोकने में असमर्थ हो सकते हैं। समय की शुभता होने से इस माह की स्थिति उत्साहजनक बनी हुई है।

दिसम्बर 2029 के लिए फलादेश

इस माह के ग्रह एवं सितारें आपके स्वास्थ्य को शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। माह अवधि में स्वास्थ्य शुभता सुनिश्चित हो रही है। इसलिए आपके द्वारा किसी भी प्रकार के गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना करने की संभावना बहुत कम बन रही है। इसके अतिरिक्त इस अवधि में आपमें ऊर्जा शक्ति अनुकूल रहेगी और आप प्रसन्नचित्त बने रहेंगे। पाचन तंत्र के सुचारु रूप से कार्य करने और इसमें कार्यात्मक विकार उत्पन्न न होने से आपको राहत प्राप्त होगी। फिर भी आप थोड़ी सावधानियां बनाए रखें। भोजन में विषाक्तता होने से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अतः आप किसी भी अशुद्ध या बासी भोजन का सेवन न करें और सावधान रहें। अतिरिक्त देखभाल करना आपको आरोग्यता देगा। इसके अलावा चिंता की कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर यह माह आपकी स्वास्थ्य संभावनाओं को प्रोत्साहित कर रहा है।